

## स्वच्छ भारत अभियान

## स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

राशनकार्ड की समस्या को देख स्पॉट में ही लगवायी सहायता शिविर

भिलाईनगर/ भिलाई की जनता से प्रतिदिन मिलने पहुँच रहे शहर के महापौर श्री देवेन्द्र यादव के वार्ड दौरे कार्यक्रम \*भिलाई के गोठ\* का सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है , एक तरफ जहाँ मोहल्लेवासियों को अपनी समस्याओं को लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने का कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा है वहीं महापौर के दिशा-निर्देश से मूलभूत आवश्यक कार्यों का स्पॉट में ही निराकरण किया जा रहा है साथ ही विकासकार्यों की मांग पर भी कार्यवाही आगे बढ़ायी जा रही है। नगर निगम अमले के साथ महापौर प्रतिदिन एक वार्ड में पहुँच जनता से रूबरू हो रहे हैं, आज इस कड़ी में \*भिलाई के गोठ\* कार्यक्रम के 11 वें दिन महापौर जोन क्र 04 अंतर्गत वार्ड 30 बालाजी नगर पहुँचे जहां शीतला माता मंदिर दर्शन कर वहाँ चौपाल लगायी और वार्डवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। राशनकार्ड बनवाने भटक रही जनता ने आज महापौर से इस संबंध में गुहार लगाई जिसे संज्ञान में लेते हुवे लोगों की सहायता हेतु स्पॉट में ही तत्काल सहायता शिविर लगाए जाने निर्देश दिए जहाँ लोगों को सर्वे सूची उपलब्ध कराई गई जिससे सभी अपने सर्वे सूची क्रमांक मालूम कर सके वहीं मजदूर कार्ड आदि के संबंध में भी जानकारी दी गयी , आवास योजना के अंतर्गत मकान का लाभ चाह रहे प्रार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की नई प्रक्रिया भी समझायी गयी तथा समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक को कार्यालय भेजा गया। उपस्थित महिलाओं ने मिलकर महापौर के समक्ष एक आंगनबाड़ी केंद्र हेतु भवन की मांग की जिसके स्पॉट तय करने पूर्व में ही महापौर ने निर्देशित किया था , उपस्थित अधिकारियों को जल्द ही स्पॉट सुनिश्चित कर कार्यवाही आगे बढ़ाने कहा। नाला चौड़ीकरण कार्य अंतर्गत हुवे सर्वे से अवैध कब्जे हटाए जाने की होने जा रही कार्यवाही को लेकर प्रभावित परिवार भी महापौर से मिले तब महापौर ने उनके साथ स्थल का निरीक्षण भी किया जनता के पक्ष को सुनते हुवे महापौर ने नाले चौड़ीकरण हेतु सामंजस्य स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही करने कहा पेयजल आपूर्ती व्यवस्था को सुदृढ करने सम्पवेल में पानी भरने उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया आज के चौपाल में महापौर को कुल 183 आवेदन प्राप्त हुवे जिनपर अग्रिम कार्यवाही हेतु आयुक्त एवं जोन कार्यालयों में प्रेषित किया गया। आज के वार्ड दौरे ने वार्डनिवासी रामावतार यादव , आर डी सिंह, लव कुमार , जग्गा राव , भास्कर राव , अजय पांडेय , भूपेन्द्र यादव , कोटेश्वर राव , अजित सिंह , अय्यूब खान , श्रीमति अनिता मौर्या, सुनीता, पिकी धीरज आदि उपस्थित रहे।

जनसंपर्क विभाग

